


শিশুদেরে জন্য বাইবলে
উপহার



এলিশা,
চমৎকার করে
ব্বালা আদমী



লিখিছেন: Edward Hughes

দ্বারা চিত্রিত: Lazarus
Alastair Paterson

অভিযোজিত: Ruth Klassen

অনুবাদিত: Sonu Rahi

দ্বারা উত্পাদিত: Bible for Children
www.M1914.org

©2025 Bible for Children, Inc.

লাইসেন্স: আপনার কাছে এই গল্পটি কপি বা প্রিন্ট করার অধিকার আছে,
যতক্ষণ না আপনি এটি করবেন না।



हर के खिचे लागी पर्याप्त
बैल न हलई। एगो आउर
बैल के जरूरत हल।



ई जरूरत एलिशा नाम के एगो
आदमी के रोक न सकल! ऊ खुद
लापता बैल के जगह लेलन,
आउर बैलो के संगे खुद के मिला
लेलन। ऊ एगो बड़ी मजबूत,
चालाक आउर भारी मेहनत
से काम करे बाला
आदमी
हलन।




एलिशा
जोत
रहलन
हल
तखनिए
परमेश्वर



के भविष्यवक्ता एलियाह के
उनखा बुलैनन। नौजबन, परमेश्वर
के सेबक बने लागी खेती बारी
छोड़ देलन। एगो दिन परमेश्वर
एगो आंधी से एलियाह के स्वर्ग
में उठा लेलथिन। अब एलिशा
इस्राएल लागी परमेश्वर के
भविष्यवक्ता हलन।





एलिय्याह के चल जाय के चलते एलिशा
दुःखी हलन, पर ऊ परमेश्वर से प्राथना
कैलन की उनखा भी एलिय्याह के नियन
शक्ति मिले। एलिशा एलिय्याह के
चदर के उठैलन, आउर लिय्याह
के नियन नदी के

बहते पानी के मारलन।
पानी अलग हो गेलई!
अब एलिसा जान गेलन
की परमेश्वर उनखर

साथे हथीन।





एलिशा बेतेल नाम के
एगो शहर जा रहलथिन
हल, कुछ जबान आदमी
"उपरे गंजा कहके उनखर
मजाक बनैलन। ओ गंजे!"
एलिसा परमेश्वर के दास
हल, ओकर ऊ कोय परबाह
न कैलन। उनका साथे एगो
चकित करे बाला घटना
घटल। दू गो भालू जंगल
से बाहरे आयल आउर ऊ
सभे बयालिश नौजबनमन
के फाड़ खेलकई।




एक दिन एलिश एगो
बिधवा से मिलल, जौन
करजा में पैसा लेलन
हल पर ओकरा
ऊ चूका न
सकलन
हल।




कर्जा के पैसा बसूले के बदले
में करजा देवे बाला अदमिया
बिधावा के दुन्नो
बेटा के अपन नौकर
बनाके ले जा रहल
हल। एलिशा कहलन,
"अपन सभे पडोसी
के पास जा आउर
खाली बर्तन के
उधार में ले आबऽ...
खाली बर्तनमन के।"
ऊ औरत लागी परमेश्वर
कुछो अद्भुत करे
जा रहलथिन हल।



बिधाबा के घर में एगो तेल
के छोटा जार हलई। बाकि
ऊ छोटका जार से ऊ सभे
जारबन के तेल से भर देलन।
जदी ऊ दिनबा में नहाय
बाला कठौऊती रहते हल
तऽ का तू नऽ सोच हऽ के
परमेश्वर ओकरा भर देखिन
हल? बिधाबा ऊ तेल बेच के
अपन बेटबन के बचा लेलन।



एगो आउर दुसर औरत आउर ओकर
मरद, एलिशा लागी अपन घरबा में एगो
खास कमरा बनैलन ताकि ऊ उधार से
गुजरथीन त ठहर सकलन हे।
ऊ कमरा में एगो
बिछौना, एगो
टेबुल, एगो कुर्सी
आउर एगो लेम्प
लगबैलन। ऊ कमरा
हमेशा एलिशा लागी
सुरक्षित करल गेले हल।



एलिशा ई जोड़ी के दयालुता पर हैरान करलन आउर सोच
रहलन हल की कईसे उनका कर्ज चुकाबल जाय। जखनी
उनखा पता चलल की उनका कोय बंश न हई, तऽ उस महिला
से कुछ ऐसन कहलन, की शायद ऊ बिस्वास करे लागी


मुस्किल हल। "अगला बरस

लगभग एही घड़ी तू
अपन बेटबा के गला
लगैबऽ।" बेसक
सही समयबा पर,
एक बरस बाद,
बाबु जलम लई।




कुछे कुछ के बाद बौआ अपन बाबूजी के साथे खेत में हलना।
"हमर माथा, हमर माथा कहके," लईका चिलईलई; जखनी
ओकर माय भीर लैकबा के लाबल गेलई, ऊ दुपहरिया ले अपन
घुटना पर बैठल रहलथिन आउर ओकर बाद उनखर मृत्यु हो
गेलई। एलिशा के कमरा में बिछौना पर
माय ऊ लैका के रख देलन।

कौन
उनखर
मदत
करलन
होत,
तू का
सोच हऽ?



का तू एलिशा के नाम बतईलऽ? हाँ ई सही हैं! उनखर माय
एगो गदहा पर काठी बांधल और ओकरा खोजे लागी जल्दी
से चल गेलथिन। एलिशा उनखर धर अइलन, अकेले ऊपरे
कमरा में चल गेलन आउर
परमेश्वर से
प्रार्थना कैलन।



परमेश्वर लड़का के जिंदगी के बापस दे देलन। एलिशा औरत के बुलैलन आउर ओकर बेटबा के ले जाय लागी कहलन। "ऊ केतना खुश होलई होत।"







सीरिया भीर के देश में एगो
नामान नाम के एगो कमांडर
रह हलन। ऊ बड़ी बहादुर
आउर मजबूत हलन, बाकि
ऊ एगो खराब चर्म रोग,
जेकरा कुष्ठ रोग कहल जा हैं,
से बेमार हलथिन।




नामान के औरत भीर एगो
इस्राएल से लाबल एगो छोटी
गुलाम लड़की हलई। छोटी
लड़की ई कहलकई, "जदी
खाली हमर प्रभु नामान,
परमेश्वर के लोग भीर जाय
जौन इस्राएल में रहऽ हथीन
तऽ ऊ उनखर कुष्ट बेमारी
चंगा हो जईतै।"



नामान एक बार, नबी के देखे लागी योजना बनैलन।
ऊ तोहफा में चांदी, सोना, आउर सुन्दर कपडबन
साथे ले गेलन।




एलिशा के नौकर बाहरे
अईलन
आउर
कहलन,



"जा यरदन नदिया में
सात बेरा डूबकी लगा लऽ
आउर तू खुदे ही चंगा हो
जईबऽ।" नामान बड़ी
गोसा गेलन। का उ अपन
देशबा, सीरिया में सुद्ध,
तजा नदिया में नऽ नहा
सकऽ हलन? गुस्सा में
आके, ऊ अपन घर के दने
जाय लगी आगे बढलन।





किस्मत से
नामान के
सेबकबन,

एलिशा के आदेश के पालन
करे लागी बिनती करलन।

तऽ नामान निचे गेलन
आउर यरदन में सात
बेरी डूबकी लगैलन।

अब नामान कोढ़ी से चंगा
हो गेलन हल! तऽ नामान
सच्चा परमेश्वर के पूजा कैलन,
एलिशा के परमेश्वर, कुष्ट
बेमारी से चंगा कैलन हे ओही
यहोवा परमेश्वर हथीन।





एलिशा के मर गेला
बाद परमेस्वर अपन
दास के इस्तेमाल
कैलन। एक दिन
आदमी के एगो गुफा
में दफनाबल गेल
जहाँ एलिशा बहुत
दिन पहिले दफनाबल
गेलन हल।





जब आदमी के लाश,
नबी के हड्डी से छुआल
तखनी ऊ आदमी फिरो से
दुबारा जिन्दा हो गेलई
आउर अपन पैरबा पर
खड़ा हो गेलई। सचो में
परमेश्वर अपन बफादार
दास एलिशा के दुआरा
अपन सबसे बड़का
ताकत देखा
देलथिन हल।



एलिशा, चमत्कार करे बाला आदमी

ঐশ্বররে বাক্য, বাইবেলে থেকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

2 রাজা 2 -13

"তোমার শব্দরে প্রবশেদ্বার আলো দিয়ে।"

গীতসংহিতা 119:130






দয় এন্ড



25



60



এই বাইবেলেরে গল্প আমাদেরকে আমাদের বস্মিয়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে
যনি আমাদের তরৈ করছেন এবং যনি চান আপনিতাঁকে জানুন।

ঈশ্বর জাননে আমরা খারাপ কাজ করছি, যাকে তিনি পাপ বলেছেন। পাপরে
শাস্তি মৃত্যু, কনিতু ঈশ্বর আপনাকে এত ভালোবাসনে তিনি তাঁর একমাত্র
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপরে জন্ম শাস্তি পতে
পাঠিয়েছেন। তারপর যীশু আবার জীবতি হয়ে স্বর্গে চলে গলেনে! আপনি যদি
যীশুতে বশ্বি বাস করনে এবং তাঁর কাছে আপনার পাপরে ক্ষমা চান, তিনি তা
করবেন! তিনি আসবেন এবং এখন আপনার মধ্যে বাস করবেন, এবং আপনি
চরিকাল তাঁর সাথে বসবাস করবেন।

যদি আপনি বশ্বি বাস করনে যে এটি সত্য, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:
প্রিয় যীশু, আমি বশ্বি বাস করযি। আপনি ঈশ্বর, এবং আমার পাপরে জন্ম
মরতে একজন মানুষ হয়েছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবতি হয়েছেন।
দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার পাপ ক্ষমা করুন, যাতে আমি
এখন নতুন জীবন পতে পারি, এবং একদিন চরিকাল আপনার সাথে থাকতে
পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং আপনার সন্তান হিসাবে
আপনার জন্ম বাঁচতে সাহায্য করুন। আমীন।

বাইবেলে পড়ুন এবং প্রতদিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন! জন 3:16

